

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1979/अग्राहायण 21, 1901
No. 239] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 12, 1979/AGRAHAYANA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना संख्या 81-ई टी सी(पी एल)/79

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय —भारतीय भेड़ों के मास का निर्यात ।

मिसल संख्या 1/5/78/ई-1.—अप्रैल 1979—मार्च 1980 की निर्यात
नीति के पृष्ठ 9 पर नीति विवरण-पत्र में भाग 'ख' की क्रम संख्या 6(ख) के

सामने कालम 3 में प्रदर्शित निर्यात नीति और सार्वजनिक सूचना संख्या 67-ई टी सी (पी एन)/79 दिनांक 27-9-79 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनके अनुसार मांस के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था 31-12-1979 तक जारी रहेगी ।

2. अब वर्तमान व्यवस्था को 31 मार्च, 1980 तक जारी रखने का निश्चय किया गया है ।

3. क्रम संख्या 6(ख) के सामने कालम 3 में शर्त (3) में पांचवी पंक्ति में सार्वजनिक सूचना संख्या 67-ई टी सी (पी एन)/79 दिनांक 27-9-79 द्वारा निविष्ट किए गए शब्द "31-12-79 तक" के स्थान पर "31 मार्च, 1980 तक" शब्द पढ़े जाएंगे ।

4. उक्त नीति में प्रदर्शित की गई अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तनीय रहेगी ।

सी. वेकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 81-ETC(PN)/79

New Delhi, the 12th December, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

Subject :—Export of Meat of Indian Sheep.

F.No. 1/5/78-E-I.—Attention is invited to the export Policy shown in Column 3 against S. No. 6(b) of Part 'B' in the policy statement on page 9 of Export Policy, April, 1979—March, 1980 and Public Notice No. 67-ETC(PN)/79 dated 27-9-79 according to which the existing arrangement for regulating the export of meat will continue upto 31-12-1979.

2. It has since been decided to continue the existing arrangements upto 31st March, 1980.

3. The words "upto 31-12-79" incorporated vide Public Notice No. 67-ETC(PN)/79 dated 27-9-79 in the 5th line in condition (iii) in Col. 3 against S. No. 6(b) shall be read as "upto 31st March, 1980".

4. All other conditions shown in the said policy shall remain unchanged.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports